

# ब्रांडेड कंपनियों का लेबल लगाकर बेचते थे नकली शराब

- एसटीएफ ने सोनीपत में पकड़ी नकली शराब की फैक्ट्री - भारी मात्रा में खाली बोतलें, लेबल, ढक्कन आदि सामान बरामद- सील लगाने वाली मशीन व 500 लीटर ...

Navbharat Times | Updated: 10 Sep 2018, 08:00:00 AM IST

[Hindi News](#)

[Samachar](#)

[Haryana News](#)

[Gurgaon News](#)

Branded Companies Were Labeled As Fake Liquor

- एसटीएफ ने सोनीपत में पकड़ी नकली शराब की फैक्ट्री
- भारी मात्रा में खाली बोतलें, लेबल, ढक्कन आदि सामान बरामद
- सील लगाने वाली मशीन व 500 लीटर शराब भी मिली
- कई ब्रांडेड कंपनियों की शराब तैयार करते थे आरोपित

प्रमुख संवाददाता, गुड़गांव

एसटीएफ की टीम ने रविवार सुबह सोनीपत के गांव बैयापुर खुर्द में नकली शराब की फैक्ट्री पकड़ी। इस बारे में एसटीएफ डीआईजी के पास सूचना थी। इसके बाद एक टीम का गठन कर रेड की गई। इस टीम ने गांव के एक व्यक्ति के मकान से भारी मात्रा में खाली बोतलें, लेबल, मार्का, ढक्कन आदि सामान बरामद किया। यहां कई ब्रांडेड कंपनियों का लेबल लगाकर नकली शराब तैयार की जाती थी। एक टंकी से करीब 500 लीटर शराब भी बरामद की गई।

एसटीएफ के डीआईजी सतीश बालन के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया। इस टीम में इंस्पेक्टर सतीश देशवाल, सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार, हवलदार जितेंद्र, देवेंद्र, यशपाल के अलावा सिपाही अमित, राकेश व महिला सिपाही ज्योति को शामिल किया गया। इस टीम ने रविवार सुबह सोनीपत में बैयापुर खुर्द गांव में पवन कुमार नाम के युवक के घर पर रेड की। यहां पर नकली शराब की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। पुलिस टीम ने यहां से रॉयल स्टैग के 600 लैबल, मैकडॉवेल के 410 लेबल, रॉयल स्टैग के 1500 कवर, 2100 खाली हॉफ बोतलें, 630 बोतलें, 648 पेटी हाफ इंपीरियल ब्ल्यू की, आठ हजार 300 ढक्कन, सील लगाने वाले दो पैकेट, दो कूलर, दो समरसीबल की मोटर, 50 पेटी खाली गते की, एक बाइक और 750 लीटर की टंकी बरामद की गई। इस टंकी में 500 लीटर शराब भी थी। आरोपी मौके से फरार हो गया। एसटीएफ का दावा है कि आरोपी को जल्द ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। पुलिस ने एसटीएफ की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Source: <https://navbharattimes.indiatimes.com/state/punjab-and-haryana/gurgaon/branded-companies-were-labeled-as-fake-liquor/articleshow/65744141.cms>